Ajanta House Charkop, Kandivli West, Mumbai 400 067 India T +91 22 6606 1000 F +91 22 6606 1200 E legal.info@ajantapharma.com W www.ajantapharma.com

20th April 2023

BSE LIMITED	National Stock Exchange of India,
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot no.
Dalal Street,	C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Mumbai – 400001	Bandra (East), Mumbai – 400 051
Scrip Code: BSE – AJANTPHARM 532331	Scrip Code: NSE AJANTPHARM EQ

Sub: Post-Buyback public announcement regarding Buyback of Equity Shares of Ajanta Pharma Limited (the "Company") by way of tender offer from existing shareholders pursuant to the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") and the Companies Act, 2013, as amended

Dear Sir/Madam,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 24(vi) of the Buyback Regulations, the Company has published a Post-Buyback public announcement dated April 19, 2023 in relation to the Buyback in the following newspapers on Thursday, April 20, 2023:

#	Newspaper	Language	Edition
1.	Business Standard	English	All Editions
2.	Business Standard	Hindi	All Editions
3.	Navshakti	Marathi	Mumbai

In this regard, please find enclosed a copy of the Post-Buyback Public Announcement, as published in the aforesaid newspapers.

We request you to please take the same on record.

Thanking You Yours faithfully,

GAURANG SHAH

VP – Legal & Company Secretary

Encl.: a/a

No data to back Centre's 'elitist, urban' claim: CJI

'State can't discriminate on characteristic over which a person has no control'

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 19 April

The state cannot discriminate against an individual on the basis of sexual characteristic over which the person has no control, the Supreme Court said on Wednesday, asserting the Centre has no data to back up its claim that the concept of same-sex marriage is "elitist" or "urban".

The apex court was hearing a batch of petitions seeking legal sanction for same-sex marriage.

"It is very simple, the State cannot discriminate against an individual on the basis of a characteristic over which the person has no control," a five-judge Constitution Bench headed by Chief Justice DY Chandrachud said on the second day of hearing on the pleas.

The Centre, in one of its affidavits filed in the apex court, termed the petitions a reflection of "urban elitist" view for the purpose of social acceptance and said recognition of marriage is essentially a legislative function which the courts should refrain from adjudicating.

Apparently agreeing with the submissions of senior advocate A M Singhvi, appearing for one of the petitioners, the bench said, "When you say that this is an innate characteristic then it is also an argument in response to the contention (of the Centre) this is elitist or urban or it has a certain class bias.

"When something is innate, then it cannot have the class bias. It may be more urban in its manifestations because the people in urban areas are coming out of closed closet. Anyway, no data is forthcoming from the government to indicate that this is urban. No data at all," observed the bench, also comprising Justices S K Kaul, S R Bhat, Hima Kohli and PS Narasimha.

WHEN SOMETHING IS INNATE, IT CANNOT HAVE THE CLASS BÍAS. IT MAY BE MORE **URBAN IN ITS MANIFESTATIONS** BECAUSE THE PEOPLE IN URBAN AREAS ARE COMING OUT OF CLOSED CLOSET

- SUPREME COURT

Singhvi stressed that every averment made by the Centre in the affidavit is without a "single survey, single data".

Another senior advocate, K V Viswanathan, who also represented one of the petitioners, said branding the petitioners as "urban elitist" showed "absolute lack of grace". "The Union should have shown some grace," Viswanathan said.

At the start of the day's hearing, Solicitor General Tushar Mehta, representing the Centre, filed a fresh affidavit urging the bench that all states and Union Territories be made parties to the proceedings as any decision on the issue without obtaining their views will render

the present "adversarial exercise" incomplete and truncated.

During the hearing, the bench also deliberated upon the consequences of legalising same-sex marriage including adoption and different marriageable age for male and female.

"Incidentally, even if a couple is in a gay relationship or a lesbian relationship. one of them can still adopt. So the whole argument that this will create a sort of psychological impact on the child is belied by the fact that even today, on the state of the law as it stands, once we have decriminalised homosexuality, it is open to people to live-in together and one of them can adopt. It is just that the child loses the benefit of parenthood so to speak of both the parents," the CJI said.

The apex court dwelt upon section 4 of the Special Marriage Act, which deals with conditions relating to solemnisation of special marriages and mandates that a male and female must be of the age of 21 and 18 years respectively.

Senior advocate Mukul Rohatgi, appearing for one of the petitioners, said a bill has been proposed to increase the marriageable age of women to 21 years. and the moment 18 years is made 21, the problem will be solved.

The bench observed it could be a "slightly dangerous argument" and recalled a petition had come before the top court where the issue of marriageable age was raised.

It said the court had rejected the petition observing if it holds the provision unconstitutional, there will be no minimum age of marriage.

During the arguments, Rohatgi urged the bench to use its "plenary power, prestige and moral authority" to push the society to acknowledge such a union as would ensure LGBTOIA persons lead a "dignified" life like heterosexuals.

FROM PAGE 1

India...

"The youth population in the age group 15-24 years is expected to increase from 233 million in 2011 to 251 million in 2021 and then continue to decrease to 229 million in 2036. Its proportion to total population is expected to fall from 19.3 per cent in 2011 to 15.1 per cent in 2036," it had said. Santosh Mehrotra, visiting professor, Centre for Development Studies, University of Bath (UK), said China's demographic dividend is over but it rode the wave of its demographic dividend and grew fast.

able to do that. We have not Ministry Spokesperson Wang in the country. only made economic policy mistakes but social policy mis- media briefing in Beijing. takes as well, with health and education remaining as neglected as ever," he added.

However, China on Wednesday sought to downplay India overtaking it as the world's most populous nation, saying it still has a "quality" workforce of close to 900 million people to provide strong impetus to development.

When assessing a country's demographic dividend, we need to look at not just the size but also the quality of its population. Size matters, but what

BS SUDOKU

■INDIA ■CHINA **Population**

Total fertility rate perwoman Concerns over possible changes to India's population (in %)

Economic Environmental 46 Sexual and reproductive health policies and 30 human rights Conflict and tensions 20

matters more is talent resources. Nearly 900 million of the 1.4 billion Chinese are of working age and on average have received 10.9 years of edu-But we are consistently not cation," Chinese Foreign provisions to improve skilling fication path, making one of Wenhin told reporters in a

> Mehrotra said India's economic growth has slowed at a time when more and more young people are joining the labour force.

We need to have an explicit cross-sectoral industrial policy, not production-linked incentive schemes confined to 13 sectors. We have to generate jobs in the micro, small and medium enterprises, while big companies are not investing to generate organised jobs," he added.

(With inputs from PTI)

3952

5 6 5 9 8 3 5 9 6 4 2 5 9 6 3 8

2

6

SOLUTION TO #3951

9

2	8	4	9	3	6	5	7	1
9	3	7	8	1	5	2	4	6
1	6	5	7	4	2	8	9	3
6	7	1	3	8	9	4	2	5
5	4	9	2	6	7	3	1	8
3	2	8	1	5	4	7	6	9
8								
7	1	6	5	2	3	9	8	4
4	9	3	6	7	8	1	5	2

Very easy: ★ **Solution tomorrow**

3

HOW TO PLAY

Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9

Cook...

He also said that the meeting Ganapathy, founding partner, focused on job creation, especially for women, while "charting a long-term and strong relationship". This comes in the backdrop of 72 per cent of Apple's (including vendors and suppliers) blue-collared workers in India being women.

Chandrasekhar too tweeted: "We discussed deepening and broadening manufacturing, exports, skilling of youth, on a global scale." expanding app innovation economy and job creation." Government sources said: "

Cook has expressed contentment with government policies while asking more support in some areas." One of the sources said that Cook asked for more

has eased the entry of many components suppliers of China, in a step to balance business, an official said. Policy stability ask of Apple is being seen in the context of changing taxation rates. For instance, the hike in GST on mobile devices from 12 per cent to 18 per cent in 2020 – just before the PLI (production-linked incentive scheme) was launched-had jolted the industry. As for deepening of Apple's production and exports of iPhones from India, its three vendors --Foxconn, Wistron and Pegatron--have not only crossed their minimum commitments under the PLI scheme but have even crossed the maximum FOB value till which the financial incentive will be given in FY23.

Quantum...

The programme will look to develop intermediate scale quantum computers with 50-1000 physical qubits in eight vears in various platforms like superconducting and photonic technology. Satellite-based secure quantum communications between ground stations over a range of 2,000 kilometres within India, long distance secure quantum communications with other countries. inter-city quantum key distribution over 2,000 km, as well as multi-node quantum network with quantum memories are also some of the deliverables of the mission.

As part of the mission, four thematic hubs will be set up at top academic and national R&D institutes — quantum computing, quantum communication, quantum sensing and metrology, and quantum materials and devices

The move was welcomed by the tech industry. Kartik IndusLaw, said: "India's entrée to the world was the supply of a vast number of talented computer engineers that helped deal with the Y2K shift. By acknowledging and embracing the need for development and focusing on quantum technology by creating a framework to allow its development India is showing its willingness to lead

"Two years ago, we launched our 'Reimagine' strategy... Today I am proud to announce we are accelerating our electriour UK plants and our nextgeneration medium-size luxubuild a stronger supply chain ry SUV architecture fully elecat a time when the government tric," Adran Mardell, JLR's chief executive officer, said in a global media update at the compa-Apple, including those from ny's Gaydon Centre in the United Kingdom. He added geopolitical challenges with that JLR was making strides towards its financial goals of achieving a net cash positive position by 2024-25 and double-digit EBIT (earnings before interest and taxes) by 2026.

He also revealed that JLR would be the anchor customer of the Tata Group's proposed Gigafactory, an announcement related to which was "hopefully imminent". "JLR will not be building a Gigafactory; that is not within our plans. Tata will be building a Gigafactory. We are clear it is going to be in Europe. A final destination hasn't yet been chosen," Mardell told reporters.

The company said its Halewood plant in the UK will become an all-electric production facility and its next-generation medium-size SUV architecture and electrified modular architecture will be pure-electric. "Jaguar Land Rover is attempting to reinvent itself, but with a weaker balance sheet and an abrupt change in management, potentially leaving bondholders in an uncomfortable position. We anticipate improvement, though Jaguar's performance trajectory is under pressure, and well behind rivals," Bloomberg Intelligence said in December.

Analysts hope the improving chip supplies and a strong order book will bode well for JLR. Motilal Oswal, the brokerage house, noted in February that the company's most profitable products constituted 74 per cent of its order book. "In turn, improving supplies would further aid the release of working capital and enable substantial net debt reduction by FY25 estimated," it added.

More on business-standard.com



AJANTA PHARMA LIMITED

Tel. No.: +91 22 6606 1000 | Fax. No.: +91 22 6606 1200 | Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Gaurang Shah

POST-BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF AJANTA PHARMA LIMITED

This post-Buyback public advertisement (the "Advertisement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as amended ("SEBI Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback

This Advertisement should be read in conjunction with the public announcement dated March 13, 2023, published on March 14, 2023 ("Public Announcement") and the letter of offer dated March 28, 2023 ("Letter of Offer") issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein shall have the same meaning as ascribed to them in the

Public Announcement and the Letter of Offer. THE BUYBACK

- Ajanta Pharma Limited (the "Company") had announced the offer to Buyback up to 22,10,500 (Twenty Two Lakhs Ten Thousand Five Hundred) fully paid-up Equity Shares of the Company of face value of ₹ 2 (Rupees Two Only) each, representing 2.59% of the Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company (not adjusted for Bonus undertaken by the Company as on June 24, 2022 ("Bonus")), from all Eligible shareholders (Equity Shareholders as on the Record Date, being March 24, 2023) on a proportionate basis, through the 'tender offer' process, at a price of ₹ 1,425 (Rupees One Thousand Four Hundred Twenty Five only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 3,14,99,62,500 (Rupees Three Hundred And Fourteen Crores Ninety Nine payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 3,14,99,62,500 (Rupees Inree Hundred And Fourteen Crores Ninety Nine Lakhs Sixty Two Thousand Five Hundred Only) (the "Buyback") excluding the Transaction Costs, representing 9.93% and 9.64% of the aggregate of the Company's paid-up capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company, respectively, as on March 31, 2022 (i.e., the latest audited financial statements available as on the date of the Board Meeting recommending the proposal of the Buyback, held on March 10, 2023). As per Regulation 4 (i) of the SEBI Buyback Regulations, the Buyback Offer Size is within the statutory limit of 25% of the aggregate of the fully paid-up capital and free reserves of the company based on the standalone financial statements of the Company as on March 31, 2022.
- The Buyback was undertaken by way of a tender offer through the stock exchange mechanism as prescribed under the SEBI Buyback Regulations and the SEBI Circulars. For the purposes of the Buyback, NSE was the designated stock exchange.
- The Buyback Opening Date was Friday, March 31, 2023, and the Buyback Closing Date was Monday, April 10, 2023.

DETAILS OF THE BUYBACK

- 22,10,500 Equity Shares were bought back under the Buyback, at the price of ₹ 1,425 (Rupees One Thousand Four Hundred Twenty-Five only) per Equity Share.
- The total amount utilized in the Buyback is ₹ 3,14,99,62,500 (Rupees Three Hundred and Fourteen Crores Ninety-Nine Lakhs Sixty-Two Γhousand Five Hundred only), excluding Transaction Costs
- The Registrar to the Buyback i.e., Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered a total of 38,732 valid bids for 6,42,81,717 Equity Shares in response to the Buyback, which is approximately 29.08 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

oddynt back. The details of the valid bids considered by the registral are as follows.								
Particulars	Number of Equity Shares available for Buyback (A)	Total no. of bids received in the category	Total Equity Shares bid for in the category (B)	Total valid Bids received in the category	Total valid Equity Shares received in the category** (C)	No. of times (total valid Equity Shares received to the total no. of Equity Shares proposed to be bought back) (C/A)		
Small Shareholder Category	3,31,575	36,862	6,99,737	36,862	6,99,142	2.11		
General Category	18,78,925	1,870	6,35,82,684	1,870	6,35,82,575	33.84		
Not in master file*	-	94	395	-	-	-		
Total	22,10,500	38,826	6,42,82,816	38,732	6,42,81,717	29.08		

*94 bids for 395 Equity Shares were not considered since they were not shareholders as on Record Date

**Excludes excess bid by 63 shareholders for 595 Equity Shares under Reserved Category and 5 shareholders for 109 Equity Shares under General Category, which were over and above their shareholding as on Record Date hence such equity shares have not been

- All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection was dispatched by the Registrar, via email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company or depositories) on April 18, 2023. In cases where email IDs were not registered with the Company or depositories, physical letters of acceptance / rejection were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on April 19, 2023.
- The settlement of all valid bids was completed by NSE Clearing Limited on Tuesday, April 18, 2023. NSE Clearing Limited has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India / relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Shareholder Broker for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Account on April 18, 2023. The unaccepted Demat Sharés have been unblocked in the account of respective Eligible Shareholders by NSE Clearing Limited on April 18, 2023.
- The extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted under the Buyback (103 physical and 22,10,397 in dematerialized form) is currently under process and shall be completed by Thursday, April 27, 2023.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

The capital structure of the Company pre and post Buyback is set forth below

	Particulars	Pre-Buyback*	Particulars	Post-Buyback*
	Authorised share capital (15,00,00,000 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	30,00,00,000	Authorised share capital (15,00,00,000 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	30,00,00,000
	Issued share capital (12,88,91,655 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,77,83,310	(12,66,81,155 equity snares of ₹ 2 each fully paid up)	25,33,62,310#
	Subscribed and Paid-up share capital (12,81,25,155 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,62,50,310	Subscribed and Paid-up share capital (12,59,14,655 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,18,29,310#
,	'As on Record date i.e. March 24, 2023			

*Subject to extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted in the Buyback

3.2 Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back under the Buyback

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Share Capital of the Company#
1	Yogesh Mannalal Agrawal	3,37,354	15.26%	0.27%
2	Rajesh Mannalal Agrawal	3,37,353	15.26%	0.27%
3	Ravi Purshottam Agrawal	3,03,698	13.74%	0.24%
4	Aayush Madhusudan Agrawal .	2,76,077	12.49%	0.22%
5	UTI Focused Equity Fund (Under 14 Schemes)	90,933	4.11%	0.07%
6	Nippon Life India Trustee Ltd - A/C Nippon India Small Cap Fund (Under 4 Schemes)	83,402	3.77%	0.07%
7	Ganga Exports being represented by Yogesh Agrawal, Rajesh Agrawal and Ravi Agrawal	70,481	3.19%	0.06%
8	Mirae Asset Large Cap Fund (Under 3 Schemes)	41,311	1.87%	0.03%
9	Tata AIA Life Insurance Company Limited A/C Emerging Opportunities Fund (Under 13 Schemes)	31,593	1.43%	0.03%
10	Ashoka India Opportunities Fund	24,615	1.11%	0.02%
11	Abu Dhabi Investment Authority - Way	23,082	1.04%	0.02%
12	Inevsco India Smallcap Fund (Under 3 Schemes)	22,698	1.03%	0.02%

The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy-back (as of the Record Date being March 24, 2023) and post the completion of the Buy-back is as follows

	Pr	e-Buyback	Post-Buyback*	
Category of Shareholder	No. of Equity Shares	% to the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares#	% to the post-Buyback Equity Share Capital*
Promoters and Members of the Promoter Group (collectively "the Promoter")	8,46,98,017	66.11%	83,373,054	66.21%
Shareholding of the Non-Promoter(s)				
Foreign Investors (including Non-Resident Indians/ FIIs / Foreign Mutual Funds)	1,31,56,192	10.27%		
Financial Institutions/Banks/ Banks & Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	1,75,87,045	13.73%	42,541,601	33.79%
Others (Public, Public Bodies Corporate etc.)	1,26,83,901	9.90%		
Total	12,81,25,155	100.00%	12,59,14,655	100.00%

*Subject to extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted in the Buyback

MANAGER TO THE BUYBACK



EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED Address: 801 - 804, Wing A, Building No 3, Inspire BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051.

CIN: L99999MH1995PLC094641 Tel. No.: +91 22 4009 4400 Contact person: Mr. Manish Tejwani

Email: ajantapharma.buyback2023@edelweissfin.com

SEBI Registration no: INM0000010650

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. This Advertisement is issued under the authority of the Board of Directors by the Buyback Committee through the resolution passed by the Buyback Committee meeting held on April 19, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors of Ajanta Pharma Limited

Sd/-Yogesh Agrawal Managing Director (DIN: 00073673)

Rajesh Agrawal (DIN: 00302467)

Gaurang Shah Joint Managing Director Company Secretary & Compliance Officer (Membership Number: F6696)

Date : April 19, 2023 Place: Mumbai

ऊंची उड़ान वाले पीएसबी में फंडों की मुनाफावसूली

मार्च तिमाही के दौरान म्युचुअल फंडों ने बेचे 1,800 करोड़ रुपये के शेयर

अभिषेक कुमार मुंबई, 19 अप्रैल

र्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के शेयरों में दो साल तक रही तेजी के बाद फंड मैनेजरों ने कुछ मुनाफावसूली की है। नौ तिमाहियों में पहली बार देसी म्युचुअल फंड पीएसबी शेयरों में शुद्ध बिकवाल रहे और मार्च तिमाही के दौरान उन्होंने 1.800 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। यह जानकारी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के विश्लेषण से मिली।

पिछली आठ तिमाहियों में फंड हाउस ने सरकारी बैंकों में 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था क्योंकि निजी बैंकों के मुकाबले ये शेयर काफी छूट पर मिल रहे थे।

फंड मैनेजरों ने कहा कि पीएसबी में अब और बढ़त की संभावना अल्पावधि में सीमित रह सकती है क्योंकि ज्यादातर सकारात्मक चीजें पहले ही समाहित हो चुकी हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयर अब ज्यादा आकर्षक

बंधन एमएफ के वरिष्ठ फंड मैनेजर (इक्विटी) सुमित अग्रवाल ने कहा, चुंकि ज्यादातर सुधार पहले ही स्पष्ट हो चुके हैं और मल्यांकन का स्तर उचित है, ऐसे में यहां से आगे बढने की यात्रा काफी मश्किल भरी होगी। दसरी ओर, निजी क्षेत्र में कुछ बड़े बैंक हैं, जिसने पिछले दो साल से निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं दिया है। कीमत के अंतर और सहज जोखिम-प्रतिफल को देखते हुए कुछ रकम इन बैंकों में लगाने और पीएसयू बैंकों से मुनाफावसूली का मतलब बनता है।

वित्त वर्ष 23 में पीएसबी समृह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्षेत्रीय सूचकांक रहा और उसमें 36 फीसदी की उछाल आई जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स में महज एक फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। एमएफ की बिकवाली के बीच अगर मार्च तिमाही में 14 फीसदी की गिरावट नहीं आई होती तो यह बढोतरी और ज्यादा हो सकती थी। 20 अग्रणी फंड हाउस ने इक्विटी पोर्टफोलियो का औसतन 3.8 फीसदी दिसंबर

आईटी शेयरों की बिकवाली जारी, लगातार तीसरे दिन टूटे बाजार

बीएस संवाददाता मुंबई, 19 अप्रैल

बेंचमार्क सुचकांकों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज हुई क्योंकि तकनीकी क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली जारी रही। सेंसेक्स 159 अंक टूटकर 59,568 पर बंद हुआ जबिक निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 17,619 पर टिका। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस चिंता में 1.8 फीसदी टूट गए कि अमेरिका व यूरोपीय बाजारों में नरमी के बीच इस क्षेत्र में वृद्धि का परिदृश्य प्रभावित होगा।

पिछले तीन कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 863 अंक यानी 1.4 फीसदी टूट चुका है।इस गिरावट से पहले लगातार नौ कारौबारी सत्र में तेजी दर्ज हुई थी और बेंचमार्क सूचकांकों में करीब 5 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली थी।

कोटक सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख (इक्विटी) श्रीकांत चौहान ने कहा, चुनिंदा

तिमाही के आखिर में पीएसयू शेयरों में लगा हुआ था। मार्च तिमाही के आखिर में यह निवेश घटकर 3.2 फीसदी रह गया। यह जानकारी मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट से मिली।

शेयरों में तेजी कोविड के बाद कारोबार के आयाम में मजबूत सुधार की पृष्ठभूमि में दर्ज हुई। इनकी परिसंपत्ति गुणवत्ता महामारी की शुरुआत से पहले से ही बेहतर स्थिति में थी। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा उधारी से उनका मार्जिन बढ़ा और दरों में बढ़ोतरी से सरकारी बैंकों का उम्दा मुनाफा सुनिश्चित हुआ। वित्त वर्ष 22 में कई पीएसबी ने शुद्ध लाभ दोगुना होने की सूचना दी। स्मॉलकेस के मैनेजर और ग्रीन पोर्टफोलियो



आईटी कंपनियों की आय में नरमी से परेशानी पैदा हुई, जिसके कारण व्यापक बिकवाली देखने को मिली।

एचसीएल टेक का शेयर 2.4 फीसदी ट्टा, जो सेंसेक्स की कंपनियों में सबसे बड़ी गिरावट है। इन्फोसिस व टीसीएस में क्रमशः 2.3 फीसदी व 1.4 फीसदी की गिरावट आई और इसने सेंसेक्स पर सबसे ज्यादा असर डाला।

लगातार तीसरे दिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक शुद्ध बिकवाल रहे और बुधवार को उन्होंने 13 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

के सह-संस्थापक डी. शर्मा ने कहा, ब्याज दरें बढ़ने के साथ बैंकों का मार्जिन बढ़ रहा है। साल 2021 में नकदी ज्यादा थी और वह ज्यादा उधारी के उठाव सुनिश्चित कर रहा था। इसी वजह से पिछली कुछ तिमाहियों में इन बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे।

सिलिकन वैली बैंक के धराशायी होने के बाद बैंकिंग शेयरों को लेकर मार्च में सेंटिमेंट खराब

मार्च में भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार बने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वित्तीय शेयरों के शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं। देसी कारकों की बात करें तो अनुमान है कि उच्च ब्याज दरों के कारण बैंकों की रफ्तार थोड़ी नरम हो सकती है।

क्यूब हाईवे इनविट ने बीसीआई, मुबाडला से जुटाए 5,226 करोड़ रुपये

सडक व हाईवे परियोजनाओं में निवेश करने वाली सिंगापुर की कंपनी क्यूब हाईवे ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (क्यूब) ने इनविट के निजी नियोजन के जिरेये 5,226 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कनाडा की पेंशन इन्वेस्टमेंट मैनेजर ब्रिटिश कोलंबिया इनेव्सेटमेंट, अबु धाबी की सॉवरिन निवेशक मुबाडला और देसी संस्थागत निवेशकों ने इस पेशकश में आवेदन किया। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में

इनविट के जरिये क्यूब ने नई पूंजी के तौर पर 3,803 करोड़ रुपये जुटाए हैं जबकि बाकी 1,423 करोड़ रुपये प्रायोजक क्यूब की द्वितीयक शेयर बिक्री के जरिए आए हैं, रहा है।

जिसे स्क्वैयर्ड कैपिटल का समर्थन हासिल है। स्क्वैयर कैपिटल अबु धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, आईएफसी औं जापानी निवेशकों के कंसोर्टियम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है। इनविट की परिसंपत्तियों के शुरुआती पोर्टफोलियो में 18 सड़क परिसंपत्तियां शामिल हैं, जो 11 राज्यों में 1,424 किलोमीटर है। साल 2023 में निजी नियोजन के जरिए इनविट जारी करने वाली क्यब पहली कंपनी है। निवेश बैंकरों के आधा दर्जन इनविट अगले तीन से

एनसीडीईएक्स में इसबगोल बीज का वायदा अनुबंध शुरू नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज

(एनसीडीईएक्स) ने बुधवार को इसबगोल के बीज का वायदा अनुबंध शुरू करते हुए गुजरात के उंझा को इसका वितरण केंद्र बनाया है। एनसीडीईएक्स ने बयान में कहा. अनुबंध मई से अगस्त, 2023 तक चार माह में व्यापार के लिए उपलब्ध हैं, और एक्सचेंज अनुबंध शुरू करने वाले कैलेंडर के अनुसार नए अनुबंध बाद में जोड़ देगा। एनसीडीईएक्स के मुख्य कारोबार अधिकारी, कपिल देव ने कहा ने कहा, 'विदेशी निर्यात खेप में वृद्धि के साथ इसबगोल भारत की कृषि निर्यात वस्तुओं में एक महत्वपूर्ण भमिका निभा रहा है। निर्यातकों और व्यापारियों के लिए इस ्रमुताबिक, निजी नियोजन वाला कम से कम 🏻 कृषि उपज के उतार-चढ़ाव भरे वातावरण में मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए समान रूप से मजबत तंत्र होना छह महीने में बाजार में उतरने की प्रतीक्षा कर 🔝 जरूरी था।' कहा गया है कि इसबगोल बीज अनुबंध एक बीएस अनिवार्य वितरण-आधारित अनुबंध होगा।

तीन लाख कर्मियों का वेतन कॉग्निजेंट ने बढ़ाया

सौरभ लेले नई दिल्ली, 19 अप्रैल

वैश्विक आईटी सेवा प्रदाता कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्युशंस ने 'मैरिट इनक्रीज' यानी प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि की घोषणा की है। कंपनी द्वारा पिछले 18 महीनों में तीसरी बार यह वेतन

वृद्धि दी जा रही है।

घोषणा ऐसे समय में की

कंपनी द्वारा मंगलवार को आईटी कंपनी आंतरिक तौर पर भेजे में यह वेतन गए ईमेल के अनुसार वृद्धि प्रदर्शन-करीब 3 लाख वैश्विक आधारित होगी कर्मचारी इस वेतन वृद्धि के दायरे में आएंगे। यह

गई है जब प्रौद्योगिकी कर्मियों के लिए वैश्विक मांग लगातार कमजोर बनी हुई है।

कंपनी के कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है, 'इस सप्ताह, आपमें से ज्यादातर लोग (जो एसोसिएट डायरेक्टर तक के स्तर के हैं) अपने 2023 के मैरिट पे ईलैटर प्राप्त करेंगे। हमने इस तरह

की वेतन वृद्धि इससे पहले 6 महीने पहले कर्मियों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद की थी। इसका मतलब है कि आप 18 महीनों में तीसरी वेतन वृद्धि देखेंगे।' निदेशक और इससे ऊपरी स्तर के पात्र अधिकारियों को जनवरी में ही प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि मिल चुकी है।

कॉग्निजेंट के मुख्य कार्याधिकारी रवि कुमार एस द्वारा भेजे गए ईमेल में कहा गया है, 'पिछले कुछ वर्षों के दौरान, हमने मौजुदा समय के मुकाबले वेतन संबंधित खर्च पर ज्यादा निवेश किया है, क्योंकि

आप हमारे लिए मूल्यवान हैं, हमारे सहयोगी हैं, और कॉ ग्निजेंट की सफलता में मददगार हैं।' इसमें कहा गया है, 'बोर्ड, कार्यकारी नेतृत्व टीम, और मैं, कॉग्निजेंट को हमारे उद्योग में पसंदीदा नियोक्ता कंपनी बनने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी की सफलता में योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद।'

विप्रो के फ्रेशरों को नए टेस्ट से गुजरना होगा

मुंबई, 19 अप्रैल

आईटी सेवा प्रदाता विप्रो फिर से सुर्खियों में है। विप्रो में शामिल होने के बाद फ्रेशरों को नया टेस्ट देने को कहा जा रहा है. जिसमें फेल होने पर उन्हें बाहर निकाला जा सकता है।

कुछ महीने पहले भी टेस्ट में फेल विप्रो ने फ्रेशरों से कम वेतन (जिसके के लिए वे होने पर फ्रेशरों पात्र थे, उसकी तुलना में को बाहर कम) पर शामिल होने को निकाला जा कहा गया था। विप्रो ने सकता है फ्रेशरों को पूर्व में पेश 6.5 लाख रुपये सालाना के

बजाय 3.5 लाख रुपये के वेतन देना अनिवार्य बना दिया था, जबकि यह वेतन श्रेणी उपलब्ध ही नहीं थी। इन फ्रेशर को वेलोसिटी नाम से एसेसमेंट प्रोग्राम क्लियर करना था। अब मार्च 2023 में कंपनी से जुड़े फ्रेशर को बताया जा रहा है कि उन्हें फिर से नैसेंट इन्फॉर्मेशेन टेक्नोलॉजी

सीनेट

के

प्रशिक्षण से गुजरने की जरूरत होगी। एनआईटीईएस के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा, 'मार्च 2022 में, विप्रों का अवैतनिक वेलोसिटी प्रशिक्षण शुरू होने से पहले, कंपनी के एचआर विभाग ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि यदि वे प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करते हैं

तो उन्हें कंपनी में फिर से किसी ट्रेनिंग से नहीं गुजरना पडेगा हालांकि 30 मार्च, 2023 को कंपनी में शामिल होने वाले फ्रेशरों के लिए विप्रो ने अचानक अपना रुख

बदल दिया और कहा कि कर्मियों को फिर से प्रशिक्षण से गुजरना होगा।' ईमेल संदेश के जवाब में एक अधिकारी ने कहा, 'विप्रो में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढते और सफल होते देखना पसंद करते हैं। प्रोजेक्ट रेडिनेस प्रोग्राम (पीआरपी) हमारी नियमित प्रक्रियाओं का हिस्सा है।

जेएलआर का भी ईवी पर दांव उत्पादों की है। आपूर्ति में सुधार से कंपनी की

इम्पलॉयीज

कार्यशील पूंजी बढ़ेगों और वित्त वर्ष 2025 तक उसका शुद्ध कर्ज भी कम हो सकता है। अप्रैल में जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जेएलआर मुनाफा बढ़ाने और अधिक से

अधिक नकदी जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जेफरीज के अनुसार इसके लिए कंपनी ऊंची कीमतों वाली एसयुवी की बिक्री पर जोर देगी। रिपोर्ट में जेफरीज ने कहा, जेएलआर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की श्रेणी में दूसरी कंपनियों से पीछे है मगर अब इसने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे कंपनी को 2024-25 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सोना 60 हजार से नीचे लुढ़का, चांदी भी टूटी

राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 510 रुपये की गिरावट के साथ

वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।

चांदी की कीमत भी 920 रुपये की गिरावट 59,940 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। के साथ 74,680 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक

सौमिल गांधी ने कहा, 'दिल्ली के बाजार में सोने का हाजिर भाव 510 रुपये घटकर 59,940 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,986 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी भी फिसलकर 24.79 डॉलर प्रति औंस

ap

AJANTA PHARMA LIMITED

POST-BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF AJANTA PHARMA LIMITED

This post-Buyback public advertisement (the "Advertisement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as amended ("SEBI Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

This Advertisement should be read in conjunction with the public announcement dated March 13, 2023, published on March 14, 2023 ("Public Announcement") and the letter of offer dated March 28, 2023 ("Letter of Offer") issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein shall have the same meaning as ascribed to them in the

Ajanta Pharma Limited (the "Company") had announced the offer to Buyback up to 22,10,500 (Twenty Two Lakhs Ten Thousand Five Against Pharma Limited (the **Company**) had announced the offer to Buyosck up to 22, 10,500 (twenty Two Lakins Ten Thousand Five Hundred) fully paid-up Equity Shares of the Company of face value of ₹ 2 (Rupees Two Only) each, representing 2.59% of the Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company (not adjusted for Bonus undertaken by the Company as on June 24, 2022 ("**Bonus**")), from all Eligible shareholders (Equity Shareholders as on the Record Date, being March 24, 2023) on a proportionate basis, through the 'tender offer' process, at a price of ₹ 1,425 (Rupees One Thousand Four Hundred Twenty Five only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 3,14,99,62,500 (Rupees Three Hundred And Fourteen Crores Ninety Nine Lakins Sixty Two Thousand Five Hundred Only) (the "**Buyback**") excluding the Transaction Costs, representing 9.93% and 9.64% of the aggregate of the Company's paid-up capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the aggregate of the Company's paid-up capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company, respectively, as on March 31, 2022 (i.e., the latest audited financial statements available as on the date of the Board Meeting recommending the proposal of the Buyback, held on March 10, 2023). As per Regulation 4 (i) of the SEBI Buyback Regulations, the Buyback Offer Size is within the statutory limit of 25% of the aggregate of the fully paid-up capital and free reserves of the company based on the standalone financial statements of the Company as on March 31, 2022.

The Buyback was undertaken by way of a tender offer through the stock exchange mechanism as prescribed under the SEBI Buyback

Regulations and the SEBI Circulars. For the purposes of the Buyback, NSE was the designated stock exchange The Buyback Opening Date was Friday, March 31, 2023, and the Buyback Closing Date was Monday, April 10, 2023.

DETAILS OF THE BUYBACK

22,10,500 Equity Shares were bought back under the Buyback, at the price of ₹ 1,425 (Rupees One Thousand Four Hundred Twenty-Five

The total amount utilized in the Buyback is ₹ 3,14,99,62,500 (Rupees Three Hundred and Fourteen Crores Ninety-Nine Lakhs Sixty-Two Thousand Five Hundred only), excluding Transaction Costs.

The Registrar to the Buyback i.e., Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered a total of 38,732 valid bids for 6,42,81,717 Equity Shares in response to the Buyback, which is approximately 29.08 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Particulars	Number of Equity Shares available for Buyback (A)	Total no. of bids received in the category	Total Equity Shares bid for in the category (B)	Total valid Bids received in the category	Total valid Equity Shares received in the category** (C)	No. of times (total valid Equity Shares received to the total no. of Equity Shares proposed to be bought back) (C/A)
Small Shareholder Category	3,31,575	36,862	6,99,737	36,862	6,99,142	2.11
General Category	18,78,925	1,870	6,35,82,684	1,870	6,35,82,575	33.84
Not in master file*	-	94	395	-	-	-
Total	22,10,500	38,826	6,42,82,816	38,732	6,42,81,717	29.08

*94 bids for 395 Equity Shares were not considered since they were not shareholders as on Record Date

**Excludes excess bid by 63 shareholders for 595 Equity Shares under Reserved Category and 5 shareholders for 109 Equity Shares under General Category, which were over and above their shareholding as on Record Date hence such equity shares have not been considered for acceptance.

All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection was dispatched by the Registrar, via email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company or depositories) on April 18, 2023. In cases where email IDs were not registered with the Company or depositories, physical letters of acceptance / rejection were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on April 19, 2023.

The settlement of all valid bids was completed by NSE Clearing Limited on Tuesday, April 18, 2023. NSE Clearing Limited has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India / relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Shareholder Broker for onward transfer to

Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Account on April 18, 2023. The unaccepted Demat Shares have been unblocked in the account of respective Eligible Shareholders by NSE Clearing Limited on April 18, 2023.

The extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted under the Buyback (103 physical and 22,10,397 in dematerialized form) s currently under process and shall be completed by Thursday, April 27, 2023

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN The capital structure of the Company pre and post Buyback is set forth below

Particulars	Pre-Buyback*	Particulars	Post-Buyback#
Authorised share capital (15,00,00,000 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	30,00,00,000	Authorised share capital (15,00,00,000 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	30,00,00,000
Issued share capital (12,88,91,655 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,77,83,310	Issued share capital (12,66,81,155 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,33,62,310#
Subscribed and Paid-up share capital (12,81,25,155 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,62,50,310	Subscribed and Paid-up share capital (12,59,14,655 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,18,29,310*

Equity Shares accepted

Equity Shares accepted as a

*As on Record date i.e. March 24, 2023 *Subject to extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted in the Buyback

Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back under the Buyback

No. of Equity

Name of the Shareholder as a % of the total Equity % of total post Buyback Equity Shares accepted No. Yogesh Mannalal Agrawa 15.26% 2 Rajesh Mannalal Agrawal 3,37,353 0.27% 15.26% 3.03.698 0.24% 3 Ravi Purshottam Agrawal 13.74% 4 Aayush Madhusudan Agrawal 2,76,077 12.49% 0.22% **UTI Focused Equity Fund** 90.933 4.11% 0.07% (Under 14 Schemes) Nippon Life India Trustee Ltd -83.402 3.77% 0.07% A/C Nippon India Small Cap Fund (Under 4 Schemes) Ganga Exports being represented by Yogesh Agrawal, Rajesh Agrawal and 0.06% Ravi Agrawal Mirae Asset Large Cap Fund 41,311 1.87% 0.03% (Under 3 Schemes) Tata AIA Life Insurance Company Limited 1.43% 0.03% A/C Emerging Opportunities Fund 31.593 (Under 13 Schemes) 10 Ashoka India Opportunities Fund 24.615 1.11% 0.02% 11 Abu Dhabi Investment Authority - Way 23,082 1.04% 0.02% Inevsco India Smallcap Fund 22.698 1.03% 0.02%

(Under 3 Schemes) *Subject to extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted in the Buyback

The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy-back (as of the Record Date being March 24, 2023) and post the completion of the Buy-back is as follows:

	Pr	e-Buyback	Post-Buyback#	
Category of Shareholder	No. of Equity Shares	% to the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares#	% to the post-Buyback Equity Share Capital*
Promoters and Members of the Promoter Group (collectively "the Promoter")	8,46,98,017	66.11%	83,373,054	66.21%
Shareholding of the Non-Promoter(s)				
Foreign Investors (including Non-Resident Indians/ FIIs / Foreign Mutual Funds)	1,31,56,192	10.27%		
Financial Institutions/Banks/ Banks & Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	1,75,87,045	13.73%	42,541,601	33.79%
Others (Public, Public Bodies Corporate etc.)	1,26,83,901	9.90%		
Total	12,81,25,155	100.00%	12,59,14,655	100.00%

*Subject to extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted in the Buyback

MANAGER TO THE BUYBACK



EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED

Address: 801 - 804, Wing A, Building No 3, Inspire BKC, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051 Website: www.edelweissfin.com

CIN: L99999MH1995PLC094641 Tel. No.: +91 22 4009 4400 Contact person: Mr. Manish Teiwani

Email: ajantapharma.buyback2023@edelweissfin.com SEBI Registration no: INM0000010650

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. This Advertisement is issued under the authority of the Board of Directors by the Buyback Committee through the resolution passed by the Buyback Committee meeting held on April 19, 2023

For and on behalf of the Board of Directors of Ajanta Pharma Limited

Yogesh Agrawal Managing Director

(DIN: 00073673)

Rajesh Agrawal Joint Managing Director (DIN: 00302467)

Gaurang Shah Company Secretary & Compliance Officer (Membership Number: F6696)

PRESSMAN

Date : April 19, 2023

में कहा था कि इसके कुल ऑर्डर बुक में 74 फीसदी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा मुनाफे वाले

मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों ने फरवरी

पृष्ठ-१ का शेष

जाहीर सूचना

शाखा कार्यालय: आयसीआयसीआय बँक लि., कार्यालय क्रमांक २०१-बी, २रा मजला, रोड क्र. १, प्लॉट क्र- बी३, वायफाय आयटी पार्क, **गाटाटा Bank** वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र-४००६०४.

खालील कर्जदारांनी बैंकेकडून त्यांनी घेतलेल्या कर्ज सुविधेची मुदल आणि व्याजाचा परतावा करण्यात कसूर केलेली आहे आणि कर्ज नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत झाले आहे. खालील नमूद तारखेची सूचना सिक्युरिटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ च्या कलम १३(२) अन्वये त्यांनी दिलेल्या त्यांच्या

	कर्जदार/सह-कर्जदार/ हमीदाराचे नाव/ (कर्ज खाते क्रमांक) आणि पत्ता	तारण मत्तेच्या मिळकतीचा पत्ता/ अंमलबजावणीयोग्य मत्ता	सूचना पाठविल्याची तारीख / सूचनेच्या तारखेम थकबाकी	एनपीए तारीख
१.	जय नितीनकुमार पटेल/ पायल जय पटेल/ (एलबीएमयुएम००००२३००५०४) आणि फ्लॅट क्र. बी-५०७, शक्ती टॉवर, शक्ती नगर, दहिसर सबवे जवळ, दहिसर	फ्लॅट क्र. ३०४, ३रा मजला, मंगल सीएचएसएल, सर्व्हे क्र. ३०४, क्रॉस रोड क्र. ०२, आकुलीं गाव, कांदिवली पूर्व तालुका- बोरिवली,	तारखेस थकबाकी फेब्रुवारी २२, २०२३ रु.	08-06-505
₹.	आाण प्लट क्र. बा-५०७, शक्ता टावर, शक्ता नगर, दाहसर सबव जवळ, दाहसर (पूर्व), मुंबई- ४०००६८ जय नितीनकुमार पटेल/ पायल जय पटेल/ (एलबीएमय्एम०००२००३६१५)	फ़ास राड क्र. २२, आकुला गाव, कादिवला पूव तालुका- बारवला, मुंबई- ४००१०१. पलॅट क्र. ३०४, ३रा मजला, मंगल सीएचएसएल, सर्व्हे क्र. ३०४,	७,७६,८९३/- फेब्रुवारी २२, २०२३	08-06-203
•	आणि फ्लॅट क्र. बी-५०७, शक्ती टॉवर, शक्ती नगर, दिहसर सबवे जवळ, दिहसर (पूर्व), मुंबई- ४०००६८	क्रॉस रोड क्र. ०२, आकुर्ली गाव, कांदिवली पूर्व तालुका- बोरिवली, मुंबई- ४००१०१.	₹. २२,३१,२९५.०४/-	, , ,
	विनय दत्तात्रय भोईर/ संजना विनय भोईर/(एलबीएमयुएम००००५६०६४४९) आणि बी/११ १ला मजला, उद्यान सीएचएस, कार्णिक रोड, तेजश्री एमएसईबी बिल्डिंग	फ्लॅट क्र. ७०५, ७वा मजला, इमारतीचा प्रकार- डी, इमारतीचे नाव- पेरल, कोणार्क सॉलिटेअर, गाव- वडवली, तालुका- कल्याण,	फेब्रुवारी २२, २०२३ रु.	04-88-808
	समोर, ठाणे- ४२१ ३०१ विनय दत्तात्रय भोईर/ संजना विनय भोईर/ (एलबीएमयुएम००००५६०६४४७) आणि	ठाणे- ४२१११०२ फ्लॅट क्र. ७०५, ७वा मजला, इमारतीचा प्रकार- डी, इमारतीचे नाव-	१७,३५,५१९.९७/- फेब्रुवारी २२, २०२३	04-88-80
	बी/११ १ला मजला, उद्यान सीएचएस, कार्णिक रोड, तेजश्री एमएसईबी बिल्डिंग समोर, ठाणे– ४२१ ३०१	पेरल, कोणार्क सॉलिटेअर, गाव- वडवली, तालुका- कल्याण, ठाणे- ४२१११०२	₹. ४,३५,०४२/-	
•	अश्विनी रामेश्वर बनकर / रामेश्वर भास्कर बनकर / (एलबीपीयुएन०००३५०४७४७) आणि फ्लॅट क्र. ३०५, ३रा मजला, बी विंग, सुदर्शन हाइट्स सीएचएसएल, चाकण, महाराष्ट्र, पुणे–४१०५०१	पलॅट क्र. ३०५, ३रा मजला, बी विंग, सुदर्शन हाइट्स सीएचएसएल, चाकण, महाराष्ट्र, पुणे-४१०५०१	फेब्रुवारी २३, २०२३ रु. १६,७६,०७०/-	०३-११-२०३
	कृष्णा गणेश गधेवार/ रुक्मिणी कृष्णा गधेवार/(एलबीएमयुएम००००४९६२१७५) आणि फ्लॅट क्र. बी–५०३, बीविंग, प्लॉट क्र५, साई सागर कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-	फ्लॅट क्र जस्मिन ४ डी-३१०६, ३१ वा मजला, बिल्डिंग क्र जस्मिन ४ डी, विंग क्र ४ डी, इंडियाबुल्स पार्क, गाव कोन, तालुका	फेब्रुवारी २३, २०२३ रु.	08-08-909
٠.	१३, पाम बीच रोडसमोर, सानपाडा, नवी मुंबई - ४००७०५ अभिजित देविदास जिवनवाल/शीतल अभिजित जीवनवाल/	पनवेल, झेडपी- रायगड, पनवेल- ४१०२०६ फ्लॅट क्र. डी-१०३, १ला मजला, इमारत- डायमंड, ''ओएसिस	२८,६४,९५६/- मार्च ०२, २०२३	03-06-203
	(एलबीएयुआर०००२४६५६०५) आणि प्लॉट क्र. १५६, गांधी नगर, बन्सीलाल नगर, महाराष्ट्र, औरंगाबाद – ४३१००१	इनिसप्रिया'' नावाचा प्रकल्प, सर्व्हे क्र. १६, सीटीएस क्र. १८७६२, रेल्वे स्टेशनच्या मागे, मौजे-पदमपुरा, औरंगाबाद- ४३१ ००१	₹. २१,९७,४०७/-	
	अभिजित देविदास जिवनवाल/शीतल अभिजित जीवनवाल/ (एलबीएयुआर०००४६४७९८४) आणि प्लॉट क्र. १५६, गांधी नगर, बन्सीलाल	पलॅट क्र. डी-१०३, १ला मजला, इमारत- डायमंड, ''ओएसिस इनसिप्रिया'' नावाचा प्रकल्प, सर्व्हें क्र. १६, सीटीएस क्र. १८७६२, रेल्वे स्टेशनच्या मागे, मौजे-पदमपुरा, औरंगाबाद- ४३१ ००१	मार्च ०२, २०२३ रु.	03-06-50
	नगर, महाराष्ट्र, औरगाबाद – ४३१००१ अमित सेवकराम लांजेवार / प्रणाली सुखदेवराव गायधने / (एलबीएनएजी००००४९३६९६७) आणि फ्लॅट क्र. २. वैनगंगा अपार्टमेंट. सदाशिव	प्लॅट क्र एफए-०१, पहिला मजला, विंग- ए, वैनगंगा इमारत, वैनगंगा- पैनगंगा अपार्टमेंट, प्लॉट क्र. ३३ ते ३८, मौजे- वाठोडा,	१४,१६,६६६/- मार्च ०२, २०२३ रु.	03-88-50
٥.	नगर, महाराष्ट्र, नागपूर- ४४०००८	नागपूर- ४४०००९ पलॅट क्र एफए-०१, पहिला मजला, बिंग- ए, बैनगंगा इमारत,	१२,४९,६९२/- मार्च ०२, २०२३	03-88-20
٠,	(एलबीएनएजी०००५३७१९७०) आणि फ्लॅट क्र. २, वैनगंगा अपार्टमेंट, सदाशिव नगर, महाराष्ट्र, नागपू- ४४०००८	वैनगंगा – पैनगंगा अपार्टमेंट, प्लॉट क्र. ३३ ते ३८, मौजे – वाठोडा, नागपूर – ४४०००९	₹. €,४८,८४९/-	,,,,,
٤.	फ्लॅट क्र. ०५, बी विंग, लक्ष्मी विहार, गट क्र. २३९५, आंबेठाण रोड, चाकण,	फ्लॅट क्र ९१०, ९वा मजला, सिल्वाना कंट्री, पुणे-आळंदी रोड, चर्होली फाट्याजवळ, चोविसावाडी, पुणे- ४१२१०५	मार्च ०२, २०२३ रु.	03-06-50
۲.		फ्लॅट क्र ९१०, ९वा मजला, सिल्वाना कंट्री, पुणे-आळंदी रोड,	१,४६,५६३/- मार्च ०२, २०२३	03-06-203
_	पलॅट क्र. ०५, बी विंग, लक्ष्मी विहार, गट क्र. २३९५, आंबेठाण रोड, चाकण, तालुका- खेड, पुणे- ४१०५०१	चर्होली फाट्याजवळ, चोविसावाडी, पुणे- ४१२१०५	₹. १,४९,१७०/-	-0.0-
₹. ×	गांधी वॉर्ड, तिरोडा, महाराष्ट्र, गोंदिया- ४४१९११	फ्लॅट क्र. जी १, तळमजला, विंग- ए, गुलमोहर प्लाझा, प्लॉट क्र. ३९, मौजे- गोरेवाडा, नागपूर-४४००२७ फ्लॅट क्र. जी १, तळमजला, विंग- ए, गुलमोहर प्लाझा, प्लॉट क्र.	मार्च ०२, २०२३ रु. ३७,३५,७१६/-	08-83-303
۲.	गांधी वॉर्ड, तिरोडा, महाराष्ट्र, गोंदिया- ४४१९११	फ्लंट क्र. जी १, तळमजला, विग- ए, गुलमोहर प्लाझा, प्लॉट क्र. ३९, मौजे- गोरेवाडा, नागपूर-४४००२७ फ्लंट क्र ४०८, ४था मजला, इमारत क्र ७, प्रकल्पाचे नाव	मार्च २, २०२३ रु. १,४२,५३३/- मार्च ०२, २०२३	09-87-70
	एस क्र. ८४, शिवतीर्थ नगर, पडवळ नगर जवळ, थेरगाव, पुणे-४११०१७	''अतुत्य'', गट क्र. ४०५, मौजे- जांभूळ, पुणे- ४१२१०६ प्लॉट क्र २५९/६/बी/२, सर्ल्हे क्र. २५९, हिस्सा क्र६/बी/२,	माच ०२, २०२३ रु. ८,२२,३२२/- मार्च ०२, २०२३	04-88-80
9.	१३वा मजला, विंग-एफ, ललित सोसायटी, नांदेड शहर, महाराष्ट्र, पुणे- ४११०५१	इरिगेशन कॉलनी समोर, इंदापूर-४१३१०६ पलॅट क्र. २२ आणि २३, ३रा मजला, इमारत- ए, स्मिता ग्लोरी, गट	रु. २४,४१,०२६/- मार्च ०२, २०२३	03-80-20
٥.	आणि फ्लॅट क्र ५८, ५वा मजला, विंग- बी, इमारत क्र ०४, सदगुरु रेसिडेन्सी, सर्व्हें क्र. ६८/२, शिवणे, शिंदे पूल जवळ, पुणे-४११०२३	क्र. ५७३, गाव- कदम वाक वस्ती, तालुका- हवेली, पुणे- ४११०२८	₹. २२,३५,२३०/-	
८.	आणि फ्लॅट क्र. ६४४, ६वा मजला, विंग- बी, आयडियल पार्क, गाव- कात्रज,	फ्लॅट क्र. ६४४, ६वा मजला, विंग- बी, आयडियल पार्क, गाव- कात्रज, तालुका- हवेली, पुणे- ४११०३७	मार्च ०२, २०२३ रु.	03-88-80
۲.		फ्लॅट क्र १०४, १ला मजला, विंग-ए१, प्रकल्पाचे नाव '' आरके	१५,६१,५४५/- मार्च ०२, २०२३	08-80-50
	आणि रवींद्र बँकर द्वारे, सर्व्हें क्र. १६४, लेन क्र. १०, नेरा गुरुद्वारा, टिंगरेनगर, विश्रांतवाडी, पुणे- ४११०३२	पुरम ए१/ए२ सीएचएसएल'', सर्व्हे क्र. २९/१/२२/१, धानोरी, पुणे- ४११०१५	₹. २५,४२,३३०/-	
٥.	भारती शालिकराम तुरेराव/ शालिकराम विठ्ठलराव तुरेराव/ (एलबीएयुआर००००५२४९६९९) आणि रो हाउस क्र. १३, अक्षद पार्क, गट क्र. १५६, महाराष्ट्र, औरंगाबाद– ४३१००१	रो हाऊस क्रए-०३, गोविंद पार्क, प्लॉट क्र. २५ ते ४०, गट क्र. ३३०, गाव- कुंभेफळ, औरंगाबाद-४३१००१	मार्च ०२, २०२३ रु. १९,७१,४२६.९८/-	03-90-70
₹.	**	फ्लॅट क्र. ११, तिसरा मजला, यशराज पार्क, सर्व्हे क्र. २२९/१, प्लॉट क्र. ०६, मौजे- हर्सूल, औरंगाबाद-४३१००१	मार्च ०२, २०२३ रु. २९,१०,८४६/-	03-80-80
₹.	भगवती जैन/ साक्षे सिंह/(एलबीएमयुएम००००५१२६४९९) आणि फ्लॅट क्र. १०१, १ला मजला, ए विंग, साई रेडियम, प्लॉट क्र ५९ ते ६१, सेक्टर- १५,	फ्लॅट क्र. ७०३, ७वा मजला, ए विंग, पाम कोर्ट ए आणि बी सीएचएस लिमिटेड, पाम कोर्ट कॉम्प्लेक्स, लिंक रोड, सीटीएस क्र.	एप्रिल ०५, २०२३ रु.	0८-0२-२0
	सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई- ४००६१४	१४०६ए/३/८, तालुका बोरवली, मालाड पश्चिम, मुंबई- ४०००६४	१,४०,१८,८३९/-	
}.	अमर चंदुलाल करनिया/चंदुलाल विधुभाई करनिया/ (एलबीएमयुएम००००५७८१०६७/ एलबीएमयुएम००००५५३९८३०) प्लॉट क्र. ३८५ खातेली क्र. १६, हरी ओम सीएचएस, सेक्टर ३, चारकोप मुंबई, कांदिवली	फ्टॅट क्र. ६०५, ६वा मजला, इमारत क्र. ०२, पॅरामाउंट एन्क्लेव्ह, गाव माहीम स्टेशन रोड, जेपी इंटरनॅशनल स्कूलसमोर, हरणवाडी नाका पालघर पश्चिम, पालघर-४०१४०४	मार्च २८, २०२३ रु. १७,०५,४६३/-	११-०१-२०
_	पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई- ४०००६७	फ्लॅट क्र. २०१, विंग क्र. ४, २रा मजला, गणेश ग्रीन व्हिलेज	मार्च २८, २०२३	09-08-20
	एलबीएमयुएम००००५८२९३०७/ एलबीएमयुएम००००५८८५८४५) एस ओ लक्ष्मण चोले, फ्लॅट क्र. २०१, इमारत क्र. ०४, गणेश ग्रीन व्हिलेज, मशाचा पाडा	सीएचएसएल, इमारत क्र. ४, टॉवर क्र. ४ ते ८, ग्रीन व्हिलेज, काशीगाव, मीरा रोड पूर्व, एस. क्र. २३ ठाणे-४०११०७	₹. ३४,५२,४३६/-	
	रोड, ग्रीन व्हिलेज, कॉम्प्प्लेक्स काशीगाव ठाणे मीरा रोड, ठाणे, महाराष्ट्र– ठाणे– ४०११०७			
५.	सदानंद देवाजी वाकडे/ वर्षा सदानंद वाकडे/(टीबीकेएलव्हाय००००६१०७७३८/ एलबीकेएलव्हाय००००६१३८८५७) मां संतोषी सीएचएस लिमिटेड, इमारत क्र. १ बी विंग, फ्लॅट क्र. १४, हनुमान नगर काटीमानिवली कल्याण पूर्व, हनुमान मंदिर	प्लॅट क्र. ३०५, ३रा मजला, ओम गुरुकृपा सीएचएसएल, सर्व्हें क्र. ४४, हिस्सा क्र. २पी, काटेमानिवली सकेत कॉलेज काटेमानिवली कल्याण पूर्व काटेमानिवल कल्याण-४२१३०६	मार्च २४, २०२३ रु. २३,२४,८६९.३४/-	02-08-20
ξ.	ठाणे, ठाणे, महाराष्ट्र-ठाणे-४२१ ३०६ आर्या ए सावंत/अरविंद एम सावंत/ (एलबीटीएनई००००३९५३४९४) खोली क्र.	फ्लॅट क्र. ४०४, ४था मजला, ई-टाइप, मिडास एन्क्लेव्ह	मार्च २४, २०२३	03-08-20
	बी १३१ श्री ओम साई सीएचएस, विरार रोड लक्ष्मी नगर जवळ, प्रिन्स पार्क नालासोपारा पूर्व, पालघर- ४०१२०९	सीएचएसएल, मोहक सिटी जवळ, ९० फूट रोड मोरेगाव प्रगती नगर, एस. क्र. ५३.७६, नालासोपारा पूर्व, महाराष्ट्र, पालघर- ४०१२०९	रु. २२,३९,८१४/−	
૭.	पटेल/(एलबीएमयुएम००००१८७३३२७) ए-५, निलेस सीएचएस, प्लॉट क्र. ५२,	पलॅट क्र. २७, बी-विंग, २रा मजला, दुर्गेश सीएचएसएल, प्लॉट क्र. १४, सेक्टर १४, गांवदेवी मंदिर जवळ, वाशी, नवी मुंबई- ४००७०३	٠	
	1, - 0 0 . 0 . 0	८०, सपटर ८०, गायद्या मादर अयळ, पाराा, नेपा मुंबई - ४००७०२	मार्च २५, २०२३ रु.	09-08-20
٤.		पलॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत	रु. २०,२८,६११.२/- मार्च २५, २०२३	
	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पप्पू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पप्पू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१)	फ्लॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर- ४०१ २०८ फ्लॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व	रु. २०,२८,६११.२/- मार्च २५, २०२३ रु. २२,३७,०५५/- मार्च २५, २०२३	03-08-50
۲.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५	फ्लॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ फ्लॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर-४०१४०४	ह. २०,२८,६११.२/- मार्च २५, २०२३ इ. २२,३७,०५५/- मार्च २५, २०२३ ह. २२,८७,९३४.९९/-	03-08-20
٥,	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पप्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पप्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१३०१	पलॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर- ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर-४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१ ३०१	ह. २०,२८,६११.२/- मार्च २५, २०२३ ह. २२,३७,०५५/- मार्च २५, २०२३ ह. २२,८७,९३४.९९/- मार्च २८, २०२३ ह. १६,३८,०२८.१८/-	03-08-20
٥,	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पप्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पप्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१३०१ स्थाम दत्ताराम धनावडे/ साक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५९४४७२) फ्लॅट क्र. ७०१, ७ वा मजला, साई पावंती	फ्लॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर- ४०१ २०८ फ्लॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर-४०१४०४ फ्लॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप,	で、 その、そと、年代れ、そのそま を、そそ、表し、のない/一 用電 そい、そのそま を、そ、人の、なるま、を、 そそ、人の、なるな、のそく一 用電 そと、そのそま を、 そに、そのそとま を、 を、また、そのそとま を、 その、そのそとま を、そのそとをとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなると	03-08-20
९.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पप्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पप्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मशिनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१३०१ स्थाम दत्ताराम धनावडे/ साक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५९४४७२) फ्लॅट क्र. ७०१, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०० ०६९	पलॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टाँवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३	下。 マ・、マ・、マ・、マ・マ・マ・マ・マ・マ・、マ・、マ・、マ・マ・マ・マ・マ・マ	03-08-20 03-08-20 03-08-20
९.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पप्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पप्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशानजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१३०१ एलविकेएलव्हाय००००५०२४४५०) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई साक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५१४४७२) फ्लॅट क्र. ५०१, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५७११०५६/ एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम,	प्लॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. २०१, २रा मजला, बी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव,	下。 マ・、マ・、マ・、マ・マ・マ・マ・、マ・、マ・、マ・、マ・、マ・、マ・	03-08-20
९. ० १.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पप्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पप्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मशिनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१३०१ स्थाम दत्ताचा धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५२४४५२) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई साक्षी श्याम धनावडे/ एलबीकेएलव्हाय००००५५१४४७२) फ्लॅट क्र. ५०१, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५७११०५६/ एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३	प्लॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. २०१, २रा मजला, बी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर-४२१५०३	下。 マ・、マ・、マ・、マ・マ・マ・マ・マ・マ・、マ・、マ・、マ・マ・マ・マ・マ・マ	03-08-20: 03-08-20: 03-08-20:
९. ० १.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पप्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पप्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशानजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१३०१ साक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५२४४५०) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई साक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५९४४७२) फ्लॅट क्र. ५०१, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५७११०५६/ एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर -४२१५०३	प्लॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. २०१, २रा मजला, बी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर-४२१५०३	で、 マ・、マ・、まく、マ・マ・マ・マ・マ・マ・、マ・、マ・、マ・、マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・マ・	03-08-20: 03-08-20: 03-08-20:
९.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पप्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पप्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुरबाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१३०१ स्वाम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५९४४५०२) फ्लॅट क्र. ५०५, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५५११०५६/एलबीटीएनई००००५५११०५६/एलबीटीएनई००००६२६६२०) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, उाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ देवराज धनर्सिंग ठाकूर/(एलबीकेएलव्हाय००००६२८६६१९/टीबीकेएलव्हाय००००६१५५२०) खोली क्र. ०४ इंदिरा नगर टिटवाळा पूर्व, जय महाकाल चाळ, सोसायटी बंगलो समोर, कल्याण ठाणे, महाराष्ट्र, कल्याण-४२१६०५ मोहनर्सिंग चुंडावत/(एलबीएमयुएम००००५३३९७७०/एलबीएमयुएम००००५३१८०४२) ए १०४	पलॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टाँवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. २०१, २रा मजला, बी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर-४२१५०३ पलॅट क्र. ३०३, ग्रँड व्हिस्टा, बी विंग, हिस्सा क्र. ३, बी भाग १० भाग आणि ३ बी भाग १२ गाव भोपर, एस. क्र. २३२, मानपाडा मेदिराजवळ आणि लोढा रीजेंसीकल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र, डोंबिवली- ४२१२०१ फ्टंट क्र. ०१, तळमजला, जी-विंग, कृष्णा धाम 'बी' को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, निलेमोर नालासोपारा	下。	03-08-20: 03-08-20: 03-08-20: 03-08-20:
₹.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पप्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पप्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१३०१ स्थान दत्ताराम धनावडे/ साक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५१४४७२) फ्लॅट क्र. ५०९, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५७११०५६/ एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ देवराज धनर्सिंग टाकूर/ गायत्री देवराज ठाकूर/ (एलबीकेएलव्हाय००००६२८६६१९/ टीबीकेएलव्हाय००००६१५५२०८) खोली क्र. ०४ इंदिरा नगर टिटवाळा पूर्व, अय महाकाल माळ, सोसायटी बंगलो समोर, कल्याण ठाणे, महाराष्ट्र, कल्याण-४२१६०५ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५३३९७०) एलबीएमयुएम००००५८६०४२) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३	पलॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टाँवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर – ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेब्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर – ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण – ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर – ४२१५०३ पलॅट क्र. १०१, २रा मजला, वी-विंग, सुरश्री को – ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर – ४२१५०३ पलॅट क्र. ३०३, ग्रँड व्हिस्टा, बी विंग, हिस्सा क्र. ३, बी भाग १० भाग आणि ३ बी भाग १२ गाव भोपर, एस. क्र. २३२, मानपाडा मंदिराजवळ आणि लोढा रीजेंसीकल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र, डॉबिवली ४२१२०१ पलॅट क्र. ०१, तळमजला, जी-विंग, कृष्णा धाम 'बी' को ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. ११९ (भाग) ता. वसई, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र नालासोपारा – ४०१ २०३	ह.	03-08-20: 03-08-20: 03-08-20: 03-08-20:
२.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताकूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पप्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पप्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुरबाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१३०१ स्थाम दत्ताराम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५९४४७२) फ्लॅट क्र. ७०१, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०० ०६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५५११०५६/एलबीटीएनई००००६५६६२०) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, उाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ देवराज धनर्सिंग टाकूर/(एलबीकेएलव्हाय००००६२८६६१९/टीबीकेएलव्हाय००००६१५५२०) खोली क्र. ०४ इंदिरा नगर टिटवाळा पूर्व, जय महाकाल चाळ, सोसायटी बंगलो समोर, कल्याण ठाणे, महाराष्ट्र, कल्याण-४२१६०५ मोहनर्सिंग चुंडावत/(एलबीएमयुएम०००५३३९७७०/एलबीएमयुएम०००५५२६०४२) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३	प्लॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, ६वी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, बी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. ३०३, ग्रँड व्हिस्टा, बी विंग, हिस्सा क्र. ३, बी भाग १० भाग आणि ३ बी भाग १२ गाव भोपर, एस. क्र. २३२, मानपाडा मंदिराजवळ आणि लोढा रीजेंसीकल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र, डोंबिवली-४२१०१ पलॅट क्र. ०१, तळमजला, जी-विंग, कृष्णा धाम 'बी' को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमेटेड, निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. ११९ (भाग) ता. वसई, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र नालासोपारा - ४०१ २०३ पलॅट क्र. ए १०२, १ला मजला, ए विंग, मातृ वंदन सीएचएसएल, गाव निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. १४१, वसई पालघर,	下。	03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20
९. १. १.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पण्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पण्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मशिनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलल्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुरबाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१३०१ स्वास चनावडे/ (एलबीकेएलल्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुरबाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१३०१ स्वाम दत्ताराम धनावडे/ (एलबीकेएलल्हाय००००५५१४७५२) फ्लॅट क्र. ७०१, ७ वा मजला, साई पावंती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुभमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५७११०५६/ एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, उाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ देवराज धनर्सिंग ठाकूर/ गायत्री देवराज ठाकूर/ (एलबीकेएलव्हाय००००६२५६०२०) प्रलेट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, उणे, महाराष्ट्र, कल्याण-४२१६०५ मोहनर्सिंग वदनर्सिंग चुंडावत/ सुगनकुवर मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५३३९७७०) एलबीएमयुएम००००५१८६०४२) ए १०४ सॉलिटअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२३ मोहनर्सिंग वदनर्सिंग चुंडावत/ सुगनकुवर मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१८६०३७) ए १०४ सॉलिटअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा-४०१२३	पलॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, ६वी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, बी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर-४२१५०३ पलॅट क्र. ३०३, ग्रॅंड व्हिस्टा, बी विंग, हिस्सा क्र. ३, बी भाग १० भाग आणि ३ बी भाग १२ गाव भोपर, एस. क्र. २३२, मानपाडा मंदिराजवळ आणि लोढा रीजेंसीकल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र, डॉबिवली-४२१००१ पलॅट क्र. ०१, तळमजला, जी-विंग, कृष्णा धाम 'बी' को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमेटेड, निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. ११९ (भाग) ता. वसई, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र जालासोपारा - ४०१ २०३ पलॅट क्र. ए १०२, १ला मजला, ए विंग, मातृ वंदन सीएचएसएल, गाव निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. १४९, वसई पालघर, महाराष्ट्र, नालासोपारा - ४०१२०३ पलॅट क्र. ए १०२, १ला मजला, ए विंग, मातृ वंदन सीएचएसएल, गाव निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. १४९, वसई पालघर, महाराष्ट्र, नालासोपारा - ४०१२०३	ह.	03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20
९९. ० ११.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पण्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पण्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मशिनजबळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुरबाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१३०१ स्याम दत्ताराम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५९४४७२) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुरबाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१३०१ स्याम दत्ताराम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५९४७५२) फ्लॅट क्र. ५०१, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजबळ, मुंबई-४०००६१ अज्य गोवधीन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५७११०५६/ एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, उाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ देवराज धनर्सिंग ठाकूर/ गायत्री देवराज ठाकूर/ (एलबीकेएलव्हाय००००६२८६६१९/ टीबीकेएलव्हाय००००६१५५२०८) खोली क्र. ०४ इंदिरा नगर टिटवाळा पूर्व, जय महाकाल चाळ, सोसायटी बंगलो समोर, कल्याण ठाणे, महाराष्ट्र, कल्याण-४२१६०५ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबिएमयुएम००००५३३९७७०/ एलबीएमयुएम००००५१८६०४२) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ एलबिएमयुएम००००५१८६०३७) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ रिना अरुण शांताराम ठांगे/ (एलबीएमयुएम००००५२९३२३) घर क्र. ५७ सावरे रोड, जांभळे गाव वेथील झेडपी शाळेच्या मागे, बदलापूर पश्चिम जांभळे, बदलापूर पूर्व, महाराष्ट्र, ठाणे, बदलापूर ४१५०३ वेशाली संतोष गायकवाड/संतोष बाबाजी गायकवाड/	पलॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, ६वी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, बी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. २०३, ग्रॅंड व्हिस्टा, बी विंग, हिस्सा क्र. ३, बी भाग १० भाग आणि ३ बी भाग १२ गाव भोपर, एस. क्र. २३२, मानपाडा मंदिराजवळ आणि लोढा रीजेंसीकल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र, डॉबिवली- ४२१२०१ पलॅट क्र. ०१, तळमजला, जी-विंग, कृष्णा धाम 'बी' को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमेटेड, निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. ११९ (भाग) ता. वसई, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र नालासोपारा - ४०१ २०३ पलॅट क्र. ए १०२, १ला मजला, ए विंग, मातृ वंदन सीएचएसएल, गाव निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. १४९, वसई पालघर, महाराष्ट्र, नालासोपारा - ४०१२०३ पलॅट क्र. ००१, तळमजला, ए-विंग, रतन आकेंड गावदेवी मंदिराजवळ, गोपाळ नगर आनंद नगर, बदलापूर पूर्व, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. २०४, ररा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. २०४, ररा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. २०४, ररा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र.	ह.	03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20
3	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पण्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पण्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सामा मागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१३०१ स्थान स्ताराम धनावडे/ साक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५९४४७२) फ्लॅट क्र. ५०५, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५४१०५६/एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर्-४२१५०३ देवराज धनर्सिंग टाकूर/ गायती देवराज ठाकूर/ (एलबीकेएलव्हाय००००६२८६६१९/ टीबीकेएलव्हाय००००६१५५२०८) खोली क्र. ०४ इंदिरा नगर टिटवाळा पूर्व, जय महाकाल वाळ, सोसायटी बंगलो समोर, कल्याण ठाणे, महाराष्ट्र, कल्याण-४२१६०५ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५३३९७७०/एलबीएमयुएम००००५१८६०२०) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ सुगनकुवर मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१८६०२०) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१८६०२३) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपार-४०१२०३ रिना अरुण शांताराम ठांगे/ (एलबीएमयुएम००००५३२९३२३) घर क्र. ५३७ सावरे रोते आप शांवचील झेडपी शाळेच्या मागे, बदलापूर पर्व महाराष्ट्र, ठाणे, वालासोपार-४०१२०३	प्लॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, ६ विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. २०१, २रा मजला, बी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर-४२१५०३ पलॅट क्र. ३०३, ग्रॅंड व्हिस्टा, बी विंग, हिस्सा क्र. ३, बी भाग १० भाग आणि ३ बी भाग १२ गाव भोपर, एस. क्र. २३२, मानपाडा मंदिराजवळ आणि लोढा रीजेंसीकल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र, डोंबिवली-४२१२०१ पलॅट क्र. ०१, तळमजला, जी-विंग, कृष्णा धाम 'बी' को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी विमिटेड, निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. ११९ (भाग) ता. वसई, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र नालासोपारा - ४०१ २०३ पलॅट क्र. ए १०२, १ला मजला, ए विंग, मातृ वंदन सीएचएसएल, गाव निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. १४९, वसई पालघर, महाराष्ट्र, नालासोपारा - ४०१ २०३ पलॅट क्र. ए १०२, १ला मजला, ए विंग, मातृ वंदन सीएचएसएल, गाव निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. १४९, वसई पालघर, महाराष्ट्र, नालासोपारा - ४०१२०३	ह.	03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20
१९ ० १९ १९	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पण्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पण्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशानजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१३०१ साक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५१४४७२) फ्लॅट क्र. ५०५, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५४१०५६/एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर -४२१५०३ देवराज धनर्सिंग ठाकूर/ (एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर -४२१५०३ देवराज धनर्सिंग ठाकूर/ गायत्री देवराज ठाकूर/ (एलबीकेएलव्हाय००००६२८६१९/टीबीकेएलव्हाय००००६१५५२०८) खोली क्र. ०४ इंदिरा नगर टिटवाळा पूर्व, जय महाकाल चाळ, सोसायटी बंगलो समोर, कल्याण ठाणे, महाराष्ट्र, कल्याण-४२१६०५ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५३३९७००) एलबीएमयुएम००००५१८६०२२) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१८६०३७) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१८६०३३) घर क्र. ५७६ सांवरे प्रेत, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ रिना अरुण शांताराम ठांगे/ (एलबीएमयुएम००००५३२९३३) घर क्र. ५७६ सांवरे प्रते को यायकवाड/ (एलबीएमयुएम००००४७८९७६९/एलबीएनएमयु००००४८९७५७) फ्लॅट क्र. २०४ ररा मजला, सेटर पाईट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. ५५, सेक्टर ११, तळोजा पंचक्र. द, तालुका पनवेल, जि. रायगड, नवी मुंबई, नवी मुंबई-४१० २०८ युस्फ. ५५२ रावल. सेवर प्रते कालिएमयुएम००००६१२४९/एलवेट युस्क. १५५ सेक्ट. २५० रवालुका पनवेल, जि. रायगड, नवी मुंबई, नवी मुंबई-४१० २०८ युस्क. ५२० रवालुका पनवेल, जि. रायगड, नवी मुंबई, नवी मुंबई-४१० २०८ युस्क. ५५० रवालुका पनवेल, जि. रायगड	पलॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टाँवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेब्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. १०१, २रा मजला, वी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर-४२१५०३ पलॅट क्र. ३०३, ग्रॅंड व्हिस्टा, बी विंग, हिस्सा क्र. ३, बी भाग १० भाग आणि ३ बी भाग १२ गाव भोपर, एस. क्र. २३२, मानपाडा मंदिराजवळ आणि लोढा रीजेंसीकल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र, डॉबिवली-४२२०१ पलॅट क्र. ०१, तळमजला, जी-विंग, कृष्णा धाम 'बी' को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. ११९ (भाग) ता. वसई, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र नालासोपारा - ४०१२०३ पलॅट क्र. ए१०२, १ला मजला, ए विंग, मातृ वंदन सीएचएसएल, गाव निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. १४१, वसई पालघर, महाराष्ट्र, नालासोपारा - ४०१२०३ पलॅट क्र. ००१, तळमजला, ए-विंग, रतन आकेंड गावदेवी मंदिराजवळ, गोपाळ नगर आनंद नगर, बदलापूर पूर्व, महाराष्ट्र, चल्लामू-४२१५०३ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. २०४, २रा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. २५५, तळोजा पंचानंद, ता. पनवेल, जि. रायगड, नवी मुंबई- ४१०२०८	ह.	03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20
२२. २२. २२. १२.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पण्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पण्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१३०१ स्थाम दत्ताराम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५९४४७२) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई साक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५९४४७२) फ्लॅट क्र. ५०१, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएर्नई०००५५९१०५६/ एलबीटीएर्नई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ देवराज धनिसँग ठाकूर/ (एलबीकेएलव्हाय००००६२८६६१९/ टीबीकेएलव्हाय००००६१५५२०८) खोली क्र. ०४ इंदिरा नगर टिटवाळा पूर्व, जय महाकाल चाळ, सोसायटी बंगलो समोर, कल्याण ठाणे, महाराष्ट्र, कल्याण-४२१६०५ (एलबीएमयुएम००००५१३३९७०) एलबीएमयुएम००००५१८६०२२) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१२६०३७) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ रिना अरुण ठांगे/अरुण शांताराम ठांगे/ (एलबीएमयुएम००००५२१९३२३) घर क्र. ५३७ सावरे रोड, जांभळे गाव येथील झेटपी शाळेच्या माने, बदलापूर पश्चम जांभळे, बदलापूर पूर्व, महाराष्ट्र, ठाणे, बदलापूर एवंट क्र. १५०३ सावरे, संतोष बाबाजी गायकवाड/ (एलबीएनएमयु०००००४९९७५५) फ्लंट क्र. २०४२ मजला, संटर पाँहेट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. ५५, सेवटा ११, तळोजा पंचक्र.द, तालुका पनवेल, जि. यायगड, नवी मुंबई, नवी मुंबई-४१० २०८ युस्फ जाकिर अली शाह/अनिस शाह/ एलबीएमएमयुएम००००६१२९५९ एलट क्र. २०४९९ एलडे प्रवेद, नवी मुंबई-४१० २०८ युस्फ जाकिर अनेत साह/ एलबीएमएस एल००००६१२२२४५९ एलट क्र. २०९ इमारत २ रोग प्रवेद, जि. भून ह्वा प्रवेद, नवी मुंबई-४१० २०८	प्लॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ प्लॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेब्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ प्लॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ प्लॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ प्लॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ प्लॅट क्र. ३०३, ग्रॅंड व्हिस्टा, बी विंग, हिस्सा क्र. ३, बी भाग १० भाग आणि ३ बी भाग १२ गाव भोपर, एस. क्र. २३२, मानपाडा मंदिराजवळ आणि लोढा रीजेंसीकल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र, डॉबिवली- ४२१२०१ प्लॅट क्र. ००१, तळमजला, जी-विंग, कृष्णा धाम 'बी' को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. ११९ (भाग) ता. वसई, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र नालासोपारा - ४०१ २०३ प्लॅट क्र. ए १०२, १ला मजला, ए विंग, मातृ वंदन सीएचएसएल, गाव निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. १४१, तसई पालघर, महाराष्ट्र, नालासोपारा - ४०१२०३ प्लॅट क्र. ००१, तळमजला, ए-विंग, रतन आकेंड गावदेवी मंदिराजवळ, गोपाळ नगर आनंद नगर, बदलापूर पूर्व, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ प्लॅट क्र. २०५, ररा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. २०५, ररा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. १५०१, तळोजा पंचानंद, ता. पनवेल, जि. रायगड, नवी मुंवई क्र. १०४, रका मजला पंचानंद, ता. पनवेल, जि. रायगड, नवी मुंवई क्र. १५०२, अपना घर फेज २ इमारत क्र. डी १, एस क्र. २५ इंकार कारखान्याच्या मागे, विनय नगर, गाव घोडबंदर मीरा भाईंदर रोड मीरा रोड पूर्व महाराष्ट्र ठाणे - ४०११०७	ह.	03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20
९. ० १. २. ४.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पण्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पण्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मिशनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुखाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण- ४२१३०१ साक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलव्हाय००००५५१४४७२) फ्लॅट क्र. ५०५, ७ वा मजला, साई पार्वती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५७११०५६/एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ देवराज धनर्सिंग ठाकूर/ गायत्री देवराज ठाकूर/ (एलबीकेएलव्हाय००००६२८६६१९/ टीबीकेएलव्हाय००००६१५५२०८) खोली क्र. ०४ इंदिरा नगर टिटवाळा पूर्व, जय महाकाल चाळ, सोसायटी बंगलो समोर, कल्याण ठाणे, महाराष्ट्र, कल्याण-४२१६०५ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५३३९७००) एलबीएमयुएम००००५१८६०४२) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोरे, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ सुगनकुवर मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१८६०३५) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोरे, नालासोपारा-४०१२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१८६०३५) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोरे, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ सुगनकुवर मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१८६०३२) पर क. ५३५ सावरे रोड, जांक्य व्हाव्य सावरे सावरे पर स्वच पर स्वच क्रिय सावरे सहाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०१२०३ नेत सावरे पर स्वच पर स	पलॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टाँवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, रुबी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. १०४, १ला मजला, बी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर-४२१५०३ पलॅट क्र. ३०३, ग्रॅंड व्हिस्टा, बी विंग, हिस्सा क्र. ३, बी भाग १० भाग आणि ३ बी भाग १२ गाव भोपर, एस. क्र. २३२, मानपाडा मंदिराजवळ आणि लोढा रीजेंसीकल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र, डोबिवली-४२१००१ पलॅट क्र. ००, तळमजला, जी-विंग, कृष्णा धाम 'बी' को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. ११९ (भाग) ता. वसई, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र नालासोपारा - ४०१ २०३ पलॅट क्र. ए १०२, १ला मजला, ए विंग, मातृ वंदन सीएचएसएल, गाव निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. १४५, वसई पालघर, महाराष्ट्र, नालासोपारा - ४०१ २०३ पलॅट क्र. ००१, तळमजला, ए-विंग, रतन आकॅड गावदेवी मंदिराजवळ, गोपाळ नगर आनंद नगर, बदलापूर पूर्व, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२९५०३ पलॅट क्र. २०५, ररा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. ५५०, ररा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. १५०२, उपा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. १५०२, अपना घर फेज २ इमारत क्र. डी १, एस क्र. २५ इंकर कारखान्याच्या मागे, विनय नगर, गाव घोडबंदर मीरा भाईंदर	ह.	03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20 03-08-20
१८. १९. ११. १२. १२. १४.	निमता एन वैद्य/ प्रतिभा पुनाजी पावसकर/ (एलबीएमयुएम००००४९५७३०७) फ्लॅट क्र. ४०३, ४था मजला, प्राईड ऑफ वाकोला सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई- ४०००५५ पण्यू चंद्रकांत साळुंखे/ पूजा पण्यू साळुंखे/ (एलबीएमयुएम००००५८५६९६१) खोली क्र. बी ०४ साईराज चाळ, बरफ पाडा खडी मशिनजवळ, विरार पूर्व वसई, पालघर- ४०१३०५ सीमा भागवत बोराडे/ (एलबीकेएलल्हाय००००३०२२४२५) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई संसार हाईट, मुरबाड रोड, वरप कल्याण महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१३०१ स्थाम दत्ताराम धनावडे/ (एलबीकेएलल्हाय००००५५९४४७२) फ्लॅट क्र. ५०५, बी विंग, साई सांक्षी श्याम धनावडे/ (एलबीकेएलल्हाय००००५५९४४७२) फ्लॅट क्र. ५०१, ७ वा मजला, साई पावंती सीएचएस लि., साईवाडी टेली गैली बिल्डींग ८ ए विंग हबटाऊन, सीटीएस ४२ गोखले पुलाजवळ, मुंबई-४०००६९ अजय गोवर्धन जाधव/सुषमा अजय जाधव/(एलबीटीएनई००००५८६६०२७) फ्लॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ देवराज धनर्सिंग ठाकूर/ (एलबीटीएनई००००५८६६०२७) पलॅट क्र. ४०५, वृंदावन व्हॅली, बदलापूर पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, बदलापूर-४२१५०३ देवराज धनर्सिंग ठाकूर/ गायत्री देवराज ठाकूर/ (एलबीकेएलव्हाय००००६२८६६१९/ टीबीकेएलव्हाय००००६१५५२०८) खोली क्र. ०४ इंदिरा नगर टिटवाळा पूर्व, जय महाकाल चाळ, सोसायटी बंगलो समोर, कल्याण ठाणे, महाराष्ट्र, कर्याण-४२१६०५ पलबीएमयुएम००००६१४६०२०) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा-४०९२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ सुगनकुवर मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१३९७७०) एलबीएमयुएम००००५१८६०४२) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा-४०९२०३ मोहनर्सिंग चुंडावत/ (एलबीएमयुएम००००५१८६०४२) ए १०४ सॉलिटेअर-२, श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स समोर, नालासोपारा पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, नालासोपारा-४०९२०३ चेर प्रतेष कामळे, वदलापूर पूर्व, महाराष्ट्र, ठाणे, बतलापूर- ४२६५०३ चेर समेर पर्व महाराष्ट्र, ठाणे, बतलापूर- ४२६५०३ चेर सम्योर, नालाकोपारा पश्चिम जावेल, विंत रायाय, निंग सुंबई, ४२०००० पर्व १३२४४९ एलट क्र. २५ सावरे प्रतेल, विंत रायाय, नवी मुंबई, नवी मुंबई-४१००० ६१३२४४९ एलट क्र. २०२४२ समारत २ रोगन एसआरए सीएचएस लि. ओशिवरा लिंक रोड भबेहराम बाग जोगेश्वरी पूर्व महाराष्ट्र मुंबई-४०००२	प्लॅट क्र. ५०४, ५वा मजला, बी-विंग, दीप क्लासिक टॉवर इमारत क्र. २, गोखिवरे वसई पूर्व एस. क्र. ६३, पालघर - ४०१ २०८ पलॅट क्र. २०३, २रा मजला, ६वी एन्क्लेव्ह, नवली गाव पालघर पूर्व ०१, पालघर - ४०१४०४ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, ए विंग, कृष्णा गार्डन, गाव वरप, कल्याण, एस क्र. ३७, महाराष्ट्र, कल्याण - ४२१ ३०१ पलॅट क्र. २०४, १ला मजला, वेदांत रेसिडेन्सी, बदलापूर पूर्व, एस. क्र. ६७, बदलापूर - ४२१५०३ पलॅट क्र. २०४, १ला मजला, वी-विंग, सुरश्री को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, रमेशवाडी केबी रोड, बदलापूर पश्चिम, गाव कुळगाव, बदलापूर-४२१५०३ पलॅट क्र. ३०३, ग्रँड व्हिस्टा, बी विंग, हिस्सा क्र. ३, बी भाग १० भाग आणि ३ बी भाग १२ गाव भोपर, एस. क्र. २३२, मानपाडा मंदिराजवळ आणि लोढा रीजेंसीकल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र, डोंबिवली-४२१०१ पलॅट क्र. ०१, तळमजला, जी-विंग, कृष्णा धाम 'बी' को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. ११९ (भाग) ता. वसई, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र नालासोपारा - ४०१ २०३ पलॅट क्र. ए १०२, १ला मजला, ए विंग, मातृ वंदन सीएचएसएल, गाव निलेमोर नालासोपारा पश्चिम, एस. क्र. १४१, वसई पालघर, महाराष्ट्र, नालासोपारा - ४०१२०३ पलॅट क्र. ००१, तळमजला, ए-विंग, रतन आकेंड गावदेवी मंदिराजवळ, गोपाळ नगर आनंद नगर, बदलापूर पूर्व, महाराष्ट्र, बत्लापूर-४२१५०३ पलॅट क्र. २०४, २रा मजला, सेंटर पॉइंट सीएचएसएल, प्लॉट क्र. २५, तळोजा पंचानंद, ता. पनवेल, जि. रायगड, नवी मुंबई- ४१०२०८ पल्टॅ क्र. १५०२, अपना घर फेज २ इमारत क्र. डी १, एस क्र. २५ इंकार कारखान्याच्या मागे, विनय नगर, गाव घोडबंदर मीरा भाईंदर रोड मीरा रोड पूर्व महाराष्ट्र ठाणे- ४०११०७	ह.	08-08-20: 08-08-20: 08-08-20: 08-08-20: 08-08-20: 08-08-20: 08-08-20: 08-08-20: 08-08-20: 08-08-20:

करण्यासाठी याद्वारे बोलाविण्यात येत आहे कसूर केल्यास सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनन्शियल ॲसेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ च्या तरतुर्दी अन्वये पुढील पावले उचलण्यात येतील.

दिनांक: एप्रिल २०, २०२३ ठिकाण: महाराष्ट्र

प्राधिकृत अधिकारी आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड

The spirit of Mumbai is now 94 years old!

FREE PRESS JOURNAL www.freepressjournal.in

शुध्दिपत्र

हे १८ एप्रिल २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या **रेडिअन्स प्रॉपर्टीज** (इंडिया) प्रा. लि. च्या मालमत्तेच्या विक्रीच्या संदर्भात आहे. कृपया लक्षात घ्या की ई-लिलावाची

तारीख २४ मे २०२३ आहे. लिलावाच्या इतर सर्व अटी जसाच तसे

सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की मे. ग्रामरसी टेकपार्क प्रा. लि. प्लॉट क्र. ७ आणि ७अ. TTC MIDC औद्योगिक क्षेत्र, ठाणे बेलापूर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र-४००७०८ येथे डेटा सेंटर प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. प्रकल्पाला EC ओळख क्रमांक EC २३ BO ३८ MH ११०२५१ दिनांक - ११.०४.२०२३ द्वारे पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली आहे. क्लीयरन्स पत्राची प्रत महाराष्ट्र राज्य प्रदेषण नियंत्रण मंडळाकडे उपलब्ध आहे आणि ती (https://parivesh.nic.in/) या वेबसाईटवरही पाहता येईल.

साठी, मे. ग्रामरसी टेकपार्क प्रा. लि. दिनांकः ११.०४.२०२३

<u>ap</u>

AJANTA PHARMA LIMITED

CIN: L24230MH1979PLC022059

Registered & Corporate Office: 'Ajanta House', 98 Govt Industrial Area, Charkop, Kandivli (West), Mumbai - 400 067, Maharashtra, India Tel. No.: +91 22 6606 1000 | Fax. No.: +91 22 6606 1200 | Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Gaurang Shah E-mail: investorgrievance@ajantapharma.com | Website: www.ajantapharma.com

POST-BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF AJANTA PHARMA LIMITED

This post-Buyback public advertisement (the "Advertisement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 as amended ("SEBI Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

This Advertisement should be read in conjunction with the public announcement dated March 13, 2023, published on March 14, 2023 ("Public Announcement") and the letter of offer dated March 28, 2023 ("Letter of Offer") issued in connection with the Buyback

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

THE BUYBACK

1.1 Ajanta Pharma Limited (the "Company") had announced the offer to Buyback up to 22,10,500 (Twenty Two Lakhs Ten Thousand Five Hundred) fully paid-up Equity Shares of the Company of face value of ₹ 2 (Rupees Two Only) each, representing 2.59% of the Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company (not adjusted for Bonus undertaken by the Company as on June 24, 2022 ("Bonus")), from all Eligible shareholders (Equity Shareholders as on the Record Date, being March 24, 2023) on a proportionate basis, through the 'tender offer' process, at a price of ₹ 1,425 (Rupees One Thousand Four Hundred Twenty Five only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 3,14,99,62,500 (Rupees Three Hundred And Fourteen Crores Ninety Nine Lakhs Sixty Two Thousand Five Hundred Only) (the "Buyback") excluding the Transaction Costs, representing 9.93% and 9.64% of the payable in cash, for an aggregate amount not exceeding < 3,14,99,02,300 (Rupees Three Hundred And Fourteen Crores Ninety Nine Lakhs Sixty Two Thousand Five Hundred Only) (the "**Buyback**") excluding the Transaction Costs, representing 9.93% and 9.64% of the aggregate of the Company's paid-up capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company, respectively, as on March 31, 2022 (i.e., the latest audited financial statements available as on the date of the Board Meeting recommending the proposal of the Buyback, held on March 10, 2023). As per Regulation 4 (i) of the SEBI Buyback Regulations, the Buyback Offer Size is within the statutory limit of 25% of the aggregate of the fully paid-up capital and free reserves of the company based on the standalone financial statements of the Company as on March 31, 2022.

- The Buyback was undertaken by way of a tender offer through the stock exchange mechanism as prescribed under the SEBI Buyback Regulations and the SEBI Circulars. For the purposes of the Buyback, NSE was the designated stock exchange.
- The Buyback Opening Date was Friday, March 31, 2023, and the Buyback Closing Date was Monday, April 10, 2023
- DETAILS OF THE BUYBACK
- 22,10,500 Equity Shares were bought back under the Buyback, at the price of ₹ 1,425 (Rupees One Thousand Four Hundred Twenty-Five only) per Equity Share. The total amount utilized in the Buyback is ₹ 3,14,99,62,500 (Rupees Three Hundred and Fourteen Crores Ninety-Nine Lakhs Sixty-Two
- Thousand Five Hundred only), excluding Transaction Costs.
- The Registrar to the Buyback i.e., Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered a total of 38,732 valid bids for 6,42,81,717 Equity Shares in response to the Buyback, which is approximately 29.08 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Particulars	Number of Equity Shares available for Buyback (A)	Total no. of bids received in the category	Total Equity Shares bid for in the category (B)	Total valid Bids received in the category	Total valid Equity Shares received in the category** (C)	No. of times (total valid Equity Shares received to the total no. of Equity Shares proposed to be bought back) (C/A)
Small Shareholder Category	3,31,575	36,862	6,99,737	36,862	6,99,142	2.11
General Category	18,78,925	1,870	6,35,82,684	1,870	6,35,82,575	33.84
Not in master file*	ı	94	395	-	ı	
Total	22,10,500	38,826	6,42,82,816	38,732	6,42,81,717	29.08

*94 bids for 395 Equity Shares were not considered since they were not shareholders as on Record Date.

**Excludes excess bid by 63 shareholders for 595 Equity Shares under Reserved Category and 5 shareholders for 109 Equity Shares under General Category, which were over and above their shareholding as on Record Date hence such equity shares have not been considered for acceptance.

- 2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection was dispatched by the Registrar, via email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company or depositories) on April 18, 2023. In cases where email IDs were not registered with the Company or depositories, physical letters of acceptance / rejection were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on April 19, 2023.
- The settlement of all valid bids was completed by NSE Clearing Limited on Tuesday, April 18, 2023. NSE Clearing Limited has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India / relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Shareholder Broker for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Account on April 18, 2023. The unaccepted Demat Sharés have been unblocked in the account of respective Eligible Sharéholders by NSE Clearing Limited on April 18, 2023.
- The extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted under the Buyback (103 physical and 22,10,397 in dematerialized form) is currently under process and shall be completed by Thursday, April 27, 2023.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- The capital structure of the Company pre and post Buyback is set forth below

Particulars	Pre-Buyback*	Particulars	Post-Buyback#
Authorised share capital (15,00,00,000 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	30,00,00,000	Authorised share capital (15,00,00,000 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	30,00,00,000
Issued share capital (12,88,91,655 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,77,83,310	Issued share capital (12,66,81,155 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,33,62,310#
Subscribed and Paid-up share capital (12,81,25,155 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,62,50,310	Subscribed and Paid-up share capital (12,59,14,655 equity shares of ₹ 2 each fully paid up)	25,18,29,310#
*A		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

*Subject to extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted in the Buyback

3.2 Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back under the Buyback

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Share Capital of the Company#
1	Yogesh Mannalal Agrawal	3,37,354	15.26%	0.27%
2	Rajesh Mannalal Agrawal	3,37,353	15.26%	0.27%
3	Ravi Purshottam Agrawal	3,03,698	13.74%	0.24%
4	Aayush Madhusudan Agrawal .	2,76,077	12.49%	0.22%
5	UTI Focused Equity Fund (Under 14 Schemes)	90,933	4.11%	0.07%
6	Nippon Life India Trustee Ltd - A/C Nippon India Small Cap Fund (Under 4 Schemes)	83,402	3.77%	0.07%
7	Ganga Exports being represented by Yogesh Agrawal, Rajesh Agrawal and Ravi Agrawal	70,481	3.19%	0.06%
8	Mirae Asset Large Cap Fund (Under 3 Schemes)	41,311	1.87%	0.03%
9	Tata AIA Life Insurance Company Limited A/C Emerging Opportunities Fund (Under 13 Schemes)	31,593	1.43%	0.03%
10	Ashoka India Opportunities Fund	24,615	1.11%	0.02%
11	Abu Dhabi Investment Authority - Way	23,082	1.04%	0.02%
12	Inevsco India Smallcap Fund (Under 3 Schemes)	22,698	1.03%	0.02%

*Subject to extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted in the Buyback

The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy-back (as of the Record Date being March 24, 2023) and post the completion

	Pre-Buyback		Post-Buyback#	
Category of Shareholder	No. of Equity Shares	% to the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares#	% to the post-Buyback Equity Share Capital*
Promoters and Members of the Promoter Group (collectively "the Promoter")	8,46,98,017	66.11%	83,373,054	66.21%
Shareholding of the Non-Promoter(s)				
Foreign Investors (including Non-Resident Indians/ FIIs / Foreign Mutual Funds)	1,31,56,192	10.27%	12 541 601	33.79%
Financial Institutions/Banks/ Banks & Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	1,75,87,045	13.73%		
Others (Public, Public Bodies Corporate etc.)	1,26,83,901	9.90%		
Total	12,81,25,155	100.00%	12,59,14,655	100.00%

*Subject to extinguishment of 22,10,500 Equity Shares accepted in the Buyback

MANAGER TO THE BUYBACK



EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED

Address: 801 - 804, Wing A, Building No 3, Inspire BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051.

CIN: L99999MH1995PLC094641

Tel. No.: +91 22 4009 4400 Contact person: Mr. Manish Tejwani

Email: ajantapharma.buyback2023@edelweissfin.com SEBI Registration no: INM000010650

(**DIN**: 00073673)

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material nformation and does not contain any misleading information. This Advertisement is issued under the authority of the Board of Directors by the Buyback Committee through the resolution passed by the Buyback Committee meeting held on April 19, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors of Ajanta Pharma Limited

Yogesh Agrawal Managing Director

Rajesh Agrawal (**DIN**: 00302467)

Gaurang Shah Joint Managing Director Company Secretary & Compliance Officer (Membership Number: F6696)

Date : April 19, 2023 Place: Mumbai